



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 8, 2004/फाल्गुन 18, 1925

No. 61]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 8, 2004/PHALGUNA 18, 1925

श्रम मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2004

सं. यू-23013/03/04-एल.डब्ल्यू.—ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, साबरमती टर्मिनल, साबरमती, अहमदाबाद के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है। समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

- | | | |
|-----|---|--------------|
| (1) | श्री पी. एस. परमार
सचिव, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
महासचिव, खेतड़ी तॉम्बा श्रमिक संघ,
डी-95, सैक्टर-II -क, खेतड़ी
राजस्थान-333504 । | —सदस्य |
| (2) | श्री बी. मजूमदार,
संयुक्त निदेशक (प्रतिष्ठान) (एल.एल.),
रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली। | —सदस्य |
| (3) | श्री क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.),
अहमदाबाद । | सदस्य-संचालक |

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

"इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, साबरमती टर्मिनल, साबरमती, अहमदाबाद के प्रतिष्ठान में कैन्टीन, सामान लादने/उतारने (कार्टेज क्लीयरिंग), सफाई तथा पिट के रख-रखाव के जॉब/कार्यों, में ठेका श्रम पद्धति का अध्ययन करना तथा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा-10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सिफारिशें करना कि उक्त प्रतिष्ठानों में उपर्युक्त जॉब /कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं।"

3. समिति का मुख्यालय अहमदाबाद में होगा। समिति शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

टी. ए. श्रीनिवासन, सचिव

MINISTRY OF LABOUR
(Central Advisory Contract Labour Board)

RESOLUTION

New Delhi, the 8th March, 2004

No. U-23013/03/04-LW.— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the establishment of Indian Oil Corporation Limited, Sabarmati Terminal, Sabarmati, Ahmedabad. The composition of the committee and its terms of reference will be as under:-

(1) Shri P.S. Parmar,
Secretary, All India Trade Union Congress,
General Secretary, Khetri Tamba Shramik Sangh,
D-95, Sector IIA, Khetri Nagar, Rajasthan – 333504.

Member

(2) Shri B. Majumdar,
Joint Director (Establishments) (LL),
Ministry of Railways, Rail Bhavan,
New Delhi-110001.

Member

(3) Regional Labour Commissioner (Central)
Ahmedabad.

Member- Convenor

2. The terms of reference of the committee would be as follows: -

“To study the working of contract labour system in the jobs/works of Canteen, Loading/unloading(Cartage clearing), cleaning and pit maintenance in the establishment of Indian Oil Corporation Limited, Sabarmati Terminal, Sabarmati, Ahmedabad and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the said jobs/works in the said establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.”

3. The Headquarters of the Committee will be at Ahmedabad. The Committee should submit its report at the earliest.

T. A. SRINIVASAN, Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2004

सं. यू-23013/04/04-एल.डब्ल्यू.— ठेका श्रम [विनियमन एवं उत्पादन] अधिनियम, 1970 की धारा-5 प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र के प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है। समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :-

[1] डॉ० विवेक मॉन्टेरिओ

सदस्य

सचिव, भारतीय कामगार संघ केन्द्र
महाराष्ट्र प्रदेश समिति, मुंबई श्रमिक संघ
क्वैरी रोड, भांडुप,
मुंबई-400 001.

[2] श्री बी. मजूमदार,

सदस्य

संयुक्त निदेशक [प्रतिष्ठान] [एल एल],
रेल मंत्रालय, रेल भवन,
नई दिल्ली-110001.

[3] क्षेत्रीय श्रमायुक्त [के०],

सदस्य-संयोजक

मुंबई।

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :-

"अनुसूची-। के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट जॉब/कार्यों में तथा अनुसूची-।। के अन्तर्गत उल्लिखित मैसर्स तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम पद्धति का अध्ययन और ठेका श्रम [विनियमन एवं उत्पादन] अधिनियम, 1970 की धारा-10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सिफारिशें करना कि अनुसूची-। के अन्तर्गत उक्त जॉब/कार्यों एवं अनुसूची-।। के अन्तर्गत उक्त प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं।"

3. समिति का मुख्यालय मुंबई में होगा। समिति शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

अनुसूची I

1. ट्रक/जहाज से पाइपों, स्टील की वस्तुओं, सीमेन्ट इत्यादि या पैक डिब्बों जैसे सामान को चढ़ाना/उतारना तथा गोदामों में पहुँचना व गोदामों से लेजाकर ट्रक/जहाज पर चढ़ाना/उतारना ।
2. समुद्री सेवा, निकासी और अग्रेषण ।
3. हाउसकीपिंग अर्थात् झाड़ू लगाना, साफ-सफाई करना ।
4. केटरिंग सेवा/कैन्टीन ।
5. चौकीदार/सुरक्षा गार्डों का कार्य ।
6. विद्युत इन्सलेशन/उपकरणों (डी जी सैट, पम्पस, ए/सी इत्यादि) का रख-रखाव ।
7. जल आपूर्ति लाइनों और सलेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का रख-रखाव ।
8. नलसाज का कार्य ।
9. बढ़ई का कार्य ।
10. लिफ्ट चलाना ।
11. डाउन होल और सर्फेस उपकरणों की सर्विसिंग, मरम्मत, सैग्रीगेशन, पैलेटाइजिंग ।
12. सामग्री की आयलिंग और ग्रीसिंग तथा उसे परिवहन अनुभाग को भेजना ।
13. बगीचों का रख-रखाव और घास कटाई ।

अनुसूची II

1. मुंबई पत्तन में 12 विक्टोरिया डॉक ।
2. नहावा सप्लाय बेस, नहावा जिला रायगढ़ ।
3. वसुधरा भवन, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ।
4. दारुखाना, मुंबई ।
5. मेकर टावर, कफे पराडे, मुंबई ।
6. बंगाल केमिकल भवन, मुंबई ।
7. निर्मल बिल्डिंग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई ।
8. अर्काडिया बिल्डिंग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई ।
9. बांद्रा कुर्ला, काम्पलेक्स, मुंबई ।
10. मुंबई में ओ एन जी सी की आवासीय कालोनी ।
11. उरन एल पी जी प्लांट, जिला रायगढ़ ।
12. पनवेल फेस । और ।।, जिला रायगढ़ ।

RESOLUTION

New Delhi, the 8th March, 2004

No. U-23013/04/04-LW.— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the establishments of Oil and Natural Gas Corporation Limited in the State of Maharashtra. The composition of the committee and its terms of reference will be as under: -

(1) Dr. Vivek Monteiro,
Secretary, Maharashtra State
Committee of Centre of Indian Trade Unions,
Office of Mumbai Shramik Sangh Quarry Road,
Bhandup, Mumbai-400001.

Member

(2) Shri B. Majumdar,
Joint Director (Establishments) (LL),
Ministry of Railways, Rail Bhavan,
New Delhi-110001.

Member

(3) The Regional Labour Commissioner (Central)
Mumbai.

Member- Convenor

2. The terms of reference of the committee would be as follows:-

“To study the working of contract labour system in the jobs/works mentioned in schedule I at the various establishments of M/S Oil and Natural Gas Corporation Limited in the State of Maharashtra mentioned in schedule II and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the said jobs/works in schedule I in the said establishments in schedule II be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.”

3. The Headquarters of the Committee will be at Mumbai. The Committee should submit its report at the earliest.

SCHEDULE I

1. Loading/unloading of materials like pipes, steel items cement etc or packed boxes from truck/ship and stacking in godowns and vice-versa; Despatching boxes of material to stores.
2. Marine service, Clearing & Forwarding.
3. Housekeeping viz sweeping, dusting cleaning.
4. Catering service/canteen.
5. Work of watchmen/security guards.
6. Maintenance of electrical installation/equipments (DG sets, pumps, A/Cs etc.).
7. Maintenance of water supply lines & sullage treatment plant.
8. Plumbing.
9. Carpentry.
10. Lift operation.
11. Servicing, repair, segregation, palletizing of down hole & surface equipments.
12. Oiling & greasing of materials and delivery to transport section.
13. Maintenance of gardens and grass cutting.

SCHEDULE II

1. 12 Victoria Dock in Port of Mumbai
2. Nhava Supply base, Nhava dist. Raigad.
3. Vasudhara Bhavan, Bandra (East), Mumbai
4. Darukhana, Mumbai.
5. Maker Tower, Cuffe Parade, Mumbai.
6. Bengal Chemical Bhavan, Mumbai.
7. Nirmal Building, Nariman Point, Mumbai.
8. Arcadia Building, Nariman Point, Mumbai.
9. Bandra Kurla Complex, Mumbai.
10. Residential colonies of ONGC in Mumbai.
11. Uran LPG Plant, District Raigad
12. Panvel Phase I & II, District Raigad.

T. A. SRINIVASAN, Secy.